



The Listing Department, BSE Limited, Phiroje Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai - 400001

BSE SCRIP Code: 500112

The Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, 5th Floor, C / 1, 'Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051

NSE SCRIP Code: SBIN

CC/S&B/AND/2024-25/611

28.10.2024

Madam / Sir,

Disclosure under Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015: **Newspaper Advertisement**

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we submit copy of newspaper advertisement published on 26.10.2024 in Business Standard (English), Business Standard (Hindi) and Navakal (Marathi) intimating the loss of share certificate by the shareholder.

Please take the above information on record.

Yours faithfully,

(Aruna N Dak) **DGM (Compliance & Company Secretary)**

Encl: A/a



GOVERNMENT OF TAMIL NADU FINANCE DEPARTMENT, CHENNAI-9

Dated: October 25, 2024

PRESS COMMUNIQUE

It is notified for general information that the outstanding balance of 8.44% Tamil Nadu SDL, 2024 issued in terms of the Government of Tamil Nadu, Finance Department, Notification No.278(L)/W&M-II/2014. dated November 21, 2014 will be repaid at par on November 26, 2024 with interest due up to and including November 25, 2024 In the event of a holiday being declared on the aforesaid date by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the loan will be repaid by the paying offices in that State on the previous working day. No interest will accrue on the loan from and after November 26, 2024.

2. As per sub-regulation 24(2) and 24(3) of Government Securities Regulations, 2007 payment of maturity proceeds to the registered holder of Government Security held in the form of Subsidiary General Ledger or Constituent Subsidiary General Ledger account or Stock Certificate shall be made by a pay order incorporating the relevant particulars of his bank account or by credit to the account of the holder in any bank having facility of receipt of funds through electronic means. For the purpose of making payment in respect of the securities, the original subscriber or the subsequent holders of such a Government Securities, as the case may be, shall submit to the Bank or Treasury and Sub-Treasury or branch of State Bank of India, where they are enfaced / registered for payment of interest, as the case may be, the relevant particulars of their bank

3. However, in the absence of relevant particulars of bank account/mandate for receipt of funds through electronic means, to facilitate repayment on the due date, holders of 8.44% Tamil Nadu SDL 2024, should tender their securities at the Public Debt Office, 20 days in advance. The securities should be tendered for repayment, duly discharged on the reverse thereof as

"Received the Principal due on the Certificate".

4. It should be particularly noted that at places where the treasury work is done by a branch of the State Bank of India, the securities, if they are in the form of Stock Certificates, should be tendered at the branch of the bank concerned and not at the Treasury or Sub -Treasury.

5. Holders who wish to receive payment at places other than those where the securities have been enfaced for payment should send them duly discharged to the Public Debt Office concerned by Registered and Insured Post. The Public Debt Office will make payment by issuing a draft payable at any Treasury/Sub-Treasury or branch of State Bank of India conducting Government Treasury work in the State of Tamil Nadu.

T.Udhayachandran Principal Secretary to Government Finance Department, Chennai-9. DIPR/ 1082 /DISPLAY/2024

M UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

Corporate Office: Grape Garden, 3rd A cross, 18th Main, 6th Block, Koramangala, Bengaluru 56009 Regional Office - West: Almonte IT Park, Sr.No.8, 7th Floor, Hadapsar Mundwa Bypass, Kharadi, Pune - 411014

POSSESSION NOTICE (for Immovable property) [Rule 8(1)] Whereas, The undersigned, being the Authorised Officer of Ujjivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice on the dates mentioned below, calling upon the Borrowers / Mortgagors to repay the amount mentioned below within 60 days from-the date of receipt of the said notice.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the possession of the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act with rule 9 of the said Rules on the Dates mentioned below.

The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of **Ujjivan Small Finance Bank Ltd** for an amount mentioned herein below and interest thereon.

The Borrower's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

S.No.1: Borrower: Siddharth Gautam Gawai, House No. 258 Panchshil Nagai Sector 17, Panvel, Raigarh, Maharashtra-410206 **Also at**, TVS Supply Chair Solutions Ltd. Building A-19, Gala no. A-19-12,12,14 Harihar Complex, Mankoi Naka, Bhiwandi, Thane, Maharashtra-421202 Also at, Flat No.02, Ground Floor Naka, Bhiwandi, Thane, Maharashtra-421202 Also at, Flat No.02, Ground Floor, Seven City, D-Wing, Village Bonshet, Old, House Property No. 992/D, Panvel, Raigarh, Maharashtra-410206, Co-Borrower: Neha Siddharth Gawai House No. 258 Panchshil Nagar, Sector 17, Panvel, Raigarh, Maharashtra-410206, Also at, Neel Imprgss CHS Flat-301, Sector-1-5 Near CIDCO Office, HDFC Circle, Panvel, Maharashtra-410206, Also at, Flat No. 02, Ground Floor, Seven City, D-Wing, Village Bonshet, Old, House Property No. 992/D, Panvel, Raigarh, Maharashtra-410206; Demand Notice Date: 29.05.2024; Amount Claimed as per Demand Notice: 761,27,951.07 (Rupees Ten Lakh Twenty Seven Thousand Nine Hundred Fifty One and Paise Seven Only) as on 28.05.2024 and further interest and charges thereon.

Possession Taken Date: 21.10.2024 DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: Flat No. 002, on Ground Floor, Wing D area admeasuring about 279 Sq.ft. Carpet area in the building known bout 4356 Sq.ft., situated at Village- Chipale Bonshet, Taluka: Panvel, District; Raigad, Maharashtra, which is owned by Siddharth Gautam Gawai

S.No.2: Borrower: Sachin Ashok Chavan, Swapnapoorti Sector 36, Kharghar, S.No.2: Borrower: Sachin Ashok Chavan, Swapnapooru Sector 36, Kharghar, Navi Mumbai, Raigarh, Maharashtra - 410210 Also at, Blue Remix, A -368, TTC Industrial Area, Mahape MIDC, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra - 400701 Also at, Flat No. 206, 2nd Floor, C wing, Century Complex, Grampanchayat House no. 676, 897, 870 & 921, Village - Khutukbandhan Owe, Taluka - Panvel, Dist: Raigad 410206, Co-Borrower: Ashok Yashwant Chavan, Swapnapoorti Sector 36, Kharghar, Navi Mumbai, Raigarh, Maharashtra - 410210, Also at, Flat No. 206, 2nd Floor, C wing, Century Complex, Grampanchayat House No. 676, 897, 870 & 921, Village - Khutukbandhan Owe, Taluka, Papual, Dist: Raigad 41026, Demand Netico D bandhan Owe, Taluka - Panyel, Dist; Raigad 410206; Demand Notice Date 18.01.2024; Amount Claimed as per Demand Notice: \$12,43,783.31 (Rupes Twelve Lakh Forty Three Thousand Seven Hundred Eighty Three and Paise Thirty

One Only) as on **15.01.2024** and further interest and charges thereon.

Possession Taken Date: **21.10.2024** DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: Flat No. 206, 2nd Floor, wing, adm 480 sq ft Built up area in the building known as 'Century Complex' nstructed on, Grampanchayat House No. 676, 897, 870 & 921 total admeasuring 3033 sq. ft. lying being situated at Village - Khutukbandhan Owe, Taluka - Panvel, Dist: Raigad, within the Grampanchayat Owe owned by Sachin Ashok Chavan and Ashok Yashwant Chavan

S.No.3: Borrower: Uma Gopi Aaragonda, New Kaneri Bhiwandi, Flat no. 2, 1st Floor, House No. 1080 F, Sr. No. 48, Hissa no. 38, Adamanagar, Kamatghar, Tal. Bhiwandi, Dist. Thane-421302 **Also at,** Uma Ladies Tailor, 117/0 Room no. 1, 1sl Floor Padma Nagar Bhiwandi, Thane, Maharashtra-421302, Co-Borrower: Gopi Rajmouli Aaragonda, New Kaneri Bhiwandi, Flat No. 2, 1st Floor, House no. 1080 F. No. 48. Hissa No. 38. Adamanagar, Kamatghar, Tal. Bhiwandi, Dist. Thane 421302: Demand Notice Date: 30.04.2024: Amount Claimed as per Demand Notice: ₹ 5,48,891.37 (Rupees Five Lakh Forty Eight Thousand Eight Hundre Ninety One and Paise Thirty Seven Only) as on 25.04.2024 and further interest an Possession Taken Date: 21.10.2024

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: Flat No. 2 admeasuring about **34.01 Sq.mtrs** area on the **First Floor** of the **Municipal House No. 1080/F**, Survey no. 48 Hissa No. 38, Situated at Village Kamatghar, Taluka: Bhiwandi, Dist. Thane AND bounded as East: Road, West: Powerloom Shed Factory, North: 5 Feet Lane, South: Yemul Narsayya Building, which is owned by Uma Gopi Aragonda.

S.No.4: Borrower: Anandrao S Jadhay, Co-Borrower: Roopali Anandrao

Jadhav, Both at, Flat No. 103, 1st Floor, Laxmi Niwas Apt. House No. 683, Old H. No. 545, Deravali, Raigarh, Maharashtra-410206 Also at, Flat No. 02, Ground Floor, Akshed Galaxy, S. No. 23, H. No. 1(P), Mauie-Ayre, Dombiyali East, Tai, Kalvan, Dist Thane Maharashtra-421202: Demand Notice Date: 27.05.2024: Amount Claimed as per Demand Notice: ₹ 21,48,633.89 (Rupees Twenty One Lakh Forty Eight Thousand Six Hundred Thirty Three and Paise Eighty Nine Only) as on 27.05.2024 and further interest and charges thereon. Possession Taken Date: 23.10.2024 DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: A Flat No. 002, on Ground Floor, admeasuring area 370 Sq.ft, built-up on the Akshed Galexy, Shreeram Nagar, Near Balaji Garden, Ayre Gaon, Dombivli (East), Dist. Thane-421202, which is owned by Anandrao Shivaji Jadhav & Roopali

S.No.5: Borrower: Amit Hargovind Singh, Flat No. 603, 6th Floor, A Wing, JVN Sky Court, Bhayandar Pada, GB Road, Thane, Maharshtra-400615, **Also at**, B. N Trading Co. Shop No. 224, 2nd Floor, Shankar Niwas Society Mulund Check Naka LBS Road, Mulund, Thane, Maharashtra-400080, Also at, Flat No.404 & 405, 4th LBS Koad, Mullind, Inane, Manarashtra-400408, Also at, Fiat No.404 & 405, 4th Floor, E Wing, C G Park, S. No. 95/2, Near Narendra Complex, Village: Purna, Tal. Bhiwandi, Thane, Maharashtra-421312, Co-Borrower: Pooja Amit Singh, Flat No. 603, 6th Floor, A Wing, JVM Sky Court, Bhayandar Pada, GB Road, Thane, Maharshtra-400615, Also at, Flat No. 404 & 405, 4th Floor, E Wing, C G Park, Sno. 95/2, Near Narendra Complex, Village: Purna, Tal. Bhiwandi, Thane, Maharashtra-421312; Demand Notice Date: 29.05.2024; Amount Claimed as per Demand Notice: 73 90.5 405 88 (Rupees Thirty Nips Lak Flive Thousand Four, Hundred Five Notice: ₹ 39,05,405.88 (Rupees Thirty Nine Lakh Five Thousand Four Hundred Five And Paise Eighty Eight Only) as on 28.05.2024 and further inte

Anandrao Jadhav.

Possession Taken Date: 24.10.2024 DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: 1.Flat No. E-405, admesuring 25.74 Sq.mtrs (Carpet) area on 4th Floor, of the Building E, in the building known as "C G Park", standing on the plot of land bearing Survey No. 95/2 of Village-Purne, lying being and situated at Purna, Tal. Bhiwandi, Dist. Thane, and within the Registration District Thane and Sub-District assurance of Bhiwandi AND bounded as East: Internal Road, West: Nala and Building, South: Building, North:

Endit No. E-404, admesuring 50.46 Sq.mtrs (Carpet) area on 4th Floor, of the Building E, in the building known as "C G Park", standing on the plot of land bearing Survey No. 95/2 of Village-Purne, lying being and situated at Purna, Tal. Bhiwandi, Dist. Thane, and within the Registration District Thane and Sub-District assurance of Bhiwandi, AND bounded as East: Internal Road, West: Nala and Building, South: Building, North: Building. Both above properties owned by Amit Hargovind Singh Place: Mumbai Authorised Officer Date: 21.10.2024 / 23.10.2024 / 24.10.2024 Ujjivan Small Finance Bank Ltd

PUBLIC NOTICE

This is to bring in the notice of Genera Public at large that Late Mr. Eknath Raghunath Jadhav is the owner of the Flat bearing No. A/303, Third Floor rincess Park Building No. 1 CHSL Malonde, constructed on land bearing Malonde, constructed on land bearing Survey No. 41/51, C.T.S. No. 199, Pardi No. 126/127 to 129, Village: Malonde, Taluka: Vasai, District: Palghar, within the limits of Vasai Virar City Municipal Corporation. Late Mr. Eknath Raghunath Jadhav passed away on 14.06.2016 eaving behind his 3 legal heirs (i.e. Mrs Sangeeta Eknath Jadhav - wife, Mr. Rohil Eknath Jadhav – Son and Mr. Rahul Eknath Jadhav - Son). The said 3 legal heirs of deceased Late Mr. Eknath Raghunath Jadhav are willing to sell the said flat / property to my client Mr. Gujabapu Rangnath Bachkar and Mrs. Ranjana Gujabapu Bachkar, Hence if any person/institute/firm/company is having any objection or claim in respect of the said flat shall submit his/her/their objection in writing to the below mentioned address within 7 days from publication of this Public notice failing which we shall hold that such rights of claims are waived and no objection shal e considered, please note

Advocate Anish Kalvert

Shop No. 1, Sahayog CHSL, Near Kalimata Mandir, Diwanman, Vasai (W) Kalimata Mandir, Diwanman, Vasai (W) Tal. Vasai, Dist. Palghar - 401202. Vasai Date: 26.10.2024

PUBLIC NOTICE

My client Mrs.Shakuntaladevi Kudila Bubna is the Owner of the Premises peing Flat No. 2606. Wing A-2. Rehab Bldg No.1 of Sindhudurg CHS Ltd, situated at Samata Nagar , Kandivali (East), Mumbai 400 101 on the land earing C.T.S. No. 837-840 of Village Poisar, Taluka Borivali Mumba Suburban District (hereinafter referred t as the said Flat).

My Client has purchased the said Flat vide an Agreement for Sale dated 13th July 2021, from Mrs.Vijaya Avinash Khanna . The above said Agreement for Sale was duly registered at the Sub Registrar's office bearing its no BRL/2/7089/2021 dated 13.07.2021.

My client has lost Original Registered Agreement dated 28th August 2019 along vith Original Stampduty & Registration Receipt bearing Registration No. BRL/5/11020/2019 dated 28.08.2019 executed by and between S D Corporation Pvt Ltd & Others therein referred to as the Developers and Mrs. Vijaya Avinash Khanna thereir referred as the Member for the premise being Flat No. 2606, Wing A-2, Rehab Bldg No.1 of Sindhudurg CHS Ltd, situated at Samata Nagar , Kandivali (East), Mumbai 400 101 on the land earing C.T.S. No. 837-840 of Village Poisar, Taluka Borivali.

My Client has also issued a NC at Samt Nagar Police Station dated 23,10,2024 bearing Complaint ID 89689/2024 for the lost of above said Original Documents.

Any person/s who has/have any claim against or to the said Scheduled property or any of them, by way of mortgage, sale transfer, assignment, lease, license, lier charge, trust, gift, exchange possession, easement, tenancy or otherwise howsoever should intimate the same in writing within 14 days from the date of publication of this notice to the undersigned at the address provide ereunder. In case no claims/objection are received within the aforesaid period it shall be presumed that there are no laimants to the said scheduled property

Date :26.10.2024 Sanngeeta Pan Advocate Bombay Highcour C/603, Avon Plaza , Thakur Complex Kandivali (East), Mumbai,

BEFORE THE JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS **58TH COURT AT BANDRA, MUMBAI** CRIMINAL CASE NO. 134/SS/2021

Centrum Broking Limited ... Complainant

Versus Keshav Narayan Kantamneni. Accused

PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED [See Section 87]

Commissioner of Police, Chennai (T.N.)

WHEREAS, complaint has been made before me that Keshav Narayan Kantamneni has committed (or is suspected to have committed) the offence of Negotiable Instrument punishable u/s 138 N.I. Act of the Indian Penal Code and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said Keshav Narayan Kantamneni cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said Keshav Narayan Kantamneni has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant);

Proclamation is hereby made that the said Keshav Narayan Kantamneni of Chennai (T.N.) is required to appear at Judicial Magistrate (F.C.) 58th before this Court (or before me) to answer the said complaint on the 29th day of November 2024. Dated, this 25th day of October, 2024.

Judicial Magistrate (First Class) 58th Court, Bandra

Add: 15/9 Crescent Street, Archbishop Mathais Avenue, Boat Club, Raja Annamalai, Puram Chennai, T.N. 600028

CFM ASSET RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED <u>red Office:</u> Block No. A/1003, West Gate, Near Ymca ır No. 835/1+3, S. G. Highway, Makarba, Ahmedabad-80051 Gujarat Corporate Office: 1st Floor, Wakefield House, thoughtful regeneration Sprott Road, Ballard Estate, Mumbai-400038. Email : sapna.desai@cfmarc.in ; info@cfmarc.in

APPENDIX IV-A
SALE NOTICE IS FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
UNDER THE PROVISIONS OF SARFAESI ACT, 2002.

Sale Notice for sale of immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002) reac with proviso to rule 8(6) of the security interest enforcement Rule, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower and Guarantors/Mort-

gagors that the below described immovable properties mortgaged to the secured Creditor, the Physical possession of which has been taken by the authorized officer of CFM Asset Reconstruction Pvt Ltd (CFM-ARC) on 23-07-2024, the secured creditor will be sold "As is where is basis PYLLIG (CFM-ARC) on 23-07-2024, the secured creditor will be sold "As is where is basis", and "No recourse basis" on 29-11-2024 for recovery of Rs. 37,42,10,083.67 (Rupees Thirty Seven Crore Forty Two Lakh Ten Thousand Eighty Three and Paise Sixty Seven Only) as on 30-09-2024 and further interest and other costs thereon due to the secured creditor from Borrower Mr. Dinesh Shishupal Punia (Borrower and Mortgagor), Mrs. Manisha Dinesh Punia (Co-borrower & Mortgagor), Mr. Mahesh Shishupal arantor) and Mrs. Mamata Mahesh Punia (Guarantor

DESCRIPTION OF SECURED PROPERTY	All that piece of Land bearing Survey no. 101 Hissa no. 38 bearing serial no. C.T.S. no. 1732 admeasuring 250 sq. Meters and Survey no. 102-A, Hissa no.11 Corresponding C.T.S. no. 1733-B (admeasuring 2200.80 sq. Meters As per Property Register Card) and C.T.S. no. 1733 - B/I (admeasuring 138 sq. Meters as per property registered card) total admeasuring area of land 2588.80 sq. Meters together with two structures standing thereon called Orient Banquet (in aggregate admeasuring 3070.43 sq. Feet Built Up Area (BUA) which are duly assessed to the Municipal Property Taxes) of Village Erangal, Madh Marve Road, Taluka – Borivali, District Mumbai – 400 0061
SECURED DEBT:	Rs. 37,42,10,083.67 (Rupees Thirty Seven Crore Forty Two Lakh Ten Thousand Eighty Three and Paise Sixty Seven Only as on 30-09-2024 and plus future interest and other costs till realization in full.
RESERVE PRICE:	Rs.24,90,00,000/- [Rupees Twenty-Four Crore Ninety Lakh Only]
EMD	Rs.2,49,00,000/- [Two Crore Forty-Nine Lakh Only]
INSPECTION DATE:	On 08-11-2024 Time: 11.00 AM to 1.00 PM
LAST DATE / TIME FOR SUBMISSION OF BID	28-11-2024 on or before 5:00 PM
AUCTION DATE / TIME	29-11-2024 @ 12.30 PM to 1.30 PM
PLACE	CFM-ARC, 1st Floor, Wakefield House, Ballard Estate, Mumbai - 038
CONTACT	Sapna Desai – 8879890250
Encumbrances if a	ny: Not known to the secured creditor
For details, terms an	d conditions please visit the website of Secured Creditor's i.e. www.cfmarc.in.

This notice of 30 days is being given to all of you in compliance of Rule 8. Sub Rule 6 of SARFAES Rules Under the SARFAESI Act 2002, informing all the Borrowers, all the Guarantors and all the Mortgagors about holding of auction/sale of the aforementioned Secured Property/ties / Secure Assets at the aforementioned date and time, with the advice to redeem the secured Property/ties Secured Assets. If so desired by them, by paying the outstanding dues as mentioned herein above along with further interest, other costs and expenses thereon due and payable prior to the scheduled auction. In case of default in payment, any or all the Secured Properties/Secured Assets shall a the discretion of the Authorized Officer/Secured Creditor be sold through any of the modes as prescribed under Rule 8(5) of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Date: 26-10-2024

Authorised Officer and Chief Manage CFM Asset Reconstruction Pvt Ltd (CFM-ARC CFMARC Trust - 2 Apna

CIE India

CIE AUTOMOTIVE INDIA LIMITED

(formerly known as Mahindra CIE Automotive Limited) CIN:L27100MH1999PLC121285

Registered Office: Suite F9D, Grand Hyatt Plaza (Lobby Level), Off Western Express Highway, Santacruz (E), Mumbai - 400 055.

Tel: +91 22 62411031 | Fax: +91 22 62411030 Website: www.cie-india.com | email: contact.investors@cie-india.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2024


				KS. III WIIIIOII		
	Consolidated					
Particulars	Quarte	r Ended	Nine Months Ended	Year Ended		
Tarround	30 Sept, 2024	30 Sept, 2023	30 Sept, 2024	31 Dec, 2023		
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
Continuing Operations						
Total Income from Operations	21,346.26	22,794.11	68,541.16	92,803.49		
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	2,599.59	2,558.75	8,504.30	10,758.51		
Net Profit / (Loss) for the period before tax(after Exceptional and / or Extraordinary items)	2,599.59	2,558.75	8,504.30	10,758.51		
Discontinued Operation						
Net Profit / (Loss) for the period before Tax from Discontinued Operations	7.51	1,886.83	17.86	3,804.08		
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (from continuing and discontinued operations)	1,952.29	3,754.16	6,425.32	11,251.49		
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	2,704.55	3,497.71	6,684.09	11,928.15		
Equity Share Capital	3,793.62	3,793.62	3,793.62	3,793.62		
Reserve (excluding revaluation reserve)				56,086.06		
Basic Earning Per Share (of 10/- each)						
Continuing Operations	5.13	4.92	16.91	21.03		
Discontinued Operations	0.01	4.98	0.03	8.63		
Diluted Earning Per Share (of 10/- each)						
Continuing Operations	5.13	4.92	16.91	21.03		
Discontinued Operations	0.01	4.98	0.03	8.63		

				Rs. In Million		
	Standalone					
Particulars	Quarte	r Ended	Nine Months Ended	Year Ended		
T di Hodiaio	30 Sept, 2024	30 Sept, 2023	30 Sept, 2024	31 Dec, 2023		
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
Total Revenue from Operations	11,359.64	11,881.90	34,445.37	45,698.43		
Profit before tax	1,658.97	1,642.19	5,959.61	7,165.25		
Proft after tax	1,236.07	1,228.74	4,672.92	5,623.44		
			,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

The above is extract of detailed format of quarterly Financial Results filed with the stock exchanges under regulation 33 of Securities are Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR)

The full format of Quarterly/Annual results are available in the Company's website www.cie-india.com and on the website of stock exchanges ww.nseindia.com and www.bseindia.com

For & on behalf of the Board of Directors



Manoj Menon **Executive Directo** DIN: 07642469

NOTICE

BASF India Limited Registered Office: The Capital, 'A' Wing, 1204- C, 12th Floor, Plot No. C-70, 'G' Block, Bandra Kurla Complex

Bandra (East), Mumbai- 400051 NOTICE is hereby given that the certificate's for the undermentioned securities of the Company has been lost/misplacedand the holder's of the said securities has applied to the Company to issue duplicate

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Officewithin 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate's without further intimation.

Name of Shareholders	Folio No.	Kind of Securities and face value	Qty	Certificate no.	Distinctive nos. From	Distinctive nos. To
			50	00222759	0016086397	0016086446
		Equity and	50	00222760	0016086447	0016086496
			10	00222761	0016086497	0016086506
Vyas Madhav			1	00222762	0016086507	0016086507
Shingatgeri			1	00222763	0016086508	0016086508
&	B9V0012530	Face Value	1	00222764	0016086509	0016086509
Shrilaxmi Vyas		Rs. 10	1	00222765	0016086510	0016086510
Shingatgeri			50	00341876	0024112186	0024112235
			5	00341877	0024112236	0024112240
			1	00341878	0024112241	0024112241
			1	00341879	0024112242	0024112242
			171		Total	

Place: Gurgaon

Date: 26.10.2024

Vyasmurti Madhavrao Shingatgeri Shrilaxmi Vyasmurti Shingatgeri Name of the Shareholder's

(Shares & Bonds)

OSBI

STATE BANK OF INDIA

CORPORATE CENTRE, STATE BANK BHAWAN, MADAME CAMA ROAD, MUMBAI - 400021

NOTICE

It is brought to Notice of shareholders that pursuant to split of face value of SBI share from Rs.10 into Re.1, share certificate(s) issued by the Bank, bearing face value of Rs.10/-, have eased to be valid with effect from 22nd November 2014. A notification was published in the Gazette of India on 05.11.2014, in this regard. Accordingly, for all purposes, shares details given in this notice are of Re.1 face value share certificate(s). Notice is hereby given that the share/ bond certificate(s) for the undermentioned securities of the bank has/have been lost/mislaid with/without duly completed transfer deed (s) by the registered holder (s)/holder(s) in due course of the said share/bond and they have applied to the Bank to issue duplicate share/bond certificate(s) in their name. Any person who has claim in respect of the said share/ bond should lodge such a claim with the Bank's Transfer Agent, M/S KFin Technologies Limited, selenium, Tower B. Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramquda Hyderabad, Telangana - 500 032, (email id einward.ris@kfintech.com) within 7 days from his date, else the bank will proceed to issue duplicate share/bond certificate(s) without further information

STATE BANK OF INDIA

SR.	FOLIO	NAME OF THE HOLDER (S)	NO. OF	CERTIFICATE NO(S).		DISTINCTIVE NO(S)		
No.			SHARES	FROM	то	FROM	то	
1		GEETA TANEJA JAI GOPAL TANEJA	840	6326784	6326784	8064269281	8064270120	
	TI 1 C							

The above figures represent details of current shares of Face Value of Re. 1/- consequen upon stock split (record date 21.11.2014). Place: Mumbai NO. OF SHARES: 840 General Manager

NO. OF S/CERTS: 1

Public Notice in Form XIII of MOFA (Rule 11(9) (e)) District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4)

Bhandari Co-op. Bank Building, 2nd floor, P. L. Kale Guruji Marg, Dadar (W), Mumbai-400028 No.DDR-4/Mum./deemed conveyance/Notice/2800/2024 Date: 17/10/2024 Application u/s 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963

Public Notice Application No. 213 of 2024

Aditya Park D Wing CHS Ltd., Having address at CTS No. 1195 & 1196, Village Dahisar, Chatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Mumbai - 400068 Applicant, Versus, 1. Goyal Builders Pvt Ltd., Through its Director Mr. Dharmendra Kumar Goyal, Having address at 1, Bina Shopping Center, MV Road, Andheri (E), Mumbai - 400069 2. Shri. Namdev Vaman Mhatre (since leccased), a) Smt. Bhanumati Namdev Mhatre, b) Sudhir Namdev Mhatre, c) Jayashree Raja Mhatre alias Javashree N Mhatre, d) Umesh Namdev Mhatre, e) Sunil Namdev Mhatre, 3 Shri. Ramkrishna Vaman Mhatre, a) Asha Ramkrishna Mhatre, b) Surekha Rajesh Mhatre, c) Sachin Ramkrishna Mhatre, d) Hemant R Mhatre, e) Harshada Yogesh Kadam, 4. Shri. Yadav Vaman Mhatre, a) Smt. Kusum Yadav Mhatre, b) Vaishali Bhushan Satam, c) Pratiksha Yogesh Aanchekar, 5. Shri Nandkumar Vaman Mhatre (since deceased), a) Vandana Nandkumai Mhatre, b) Preeti Harish Patil, c) Jagruti Nitin Boridkar, d) Kavish Nandkumar Mhatre 6. Anant Vaman Mhatre (since deceased), a) Smt. Nirmala Anant Mhatre, b) Bharti Anan Mhate, c) Kirti Nikhil Mhatre, d) Vinay Anant Mhatre, 7. Smt. Mathura Vaman Mhatre, 8 Smt. Nirmalabai Anant Mhatre, a) Chandrakant Anant Mhatre, b) Shashikant Anant Mhatre, c) Ganesh Anant Mhatre, d) Méena Vithal Patil, Being the landowners as per property card And 7/12 extract having last known address at Village Dahisar, Taluka Borivali, CTS No. 1196, Chatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Mumbai 400068, **9. Minal Park CHS Ltd.**, Having address a Plot No. 1195, 1196, CS Road, Near Anand Nagar, Dahisar (E), Mumbai 400068, **10. Aditya Park C-Wing CHS Ltd.**, C/o. Motilal N Shah, CTS No. 1196, Chatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Mumbai 400068, **11. Aditya Park CHS Ltd.,** Having address at CTS No. 1196, Chatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Mumbai 400068.....**Opponents**, and those, whose interests have been vested in he said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned above. Failure o submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this regard and further actio ill be taken accordingly

Description of the Property:-

Claimed Area

Unilateral conveyance for the Applicant Society for deemed conveyance on all that piece and parcel of land and building admeasuring 260.55 square meter (i.e. Proportionate Undivided Rights in Balance Plot Area) and proportionate undivided rights in common R.G. Area admeasuring 45.98 23 V 1345 851 agg total 306 53 ca Survey No./Hissa No. 79/2 CTS No. 1196 of Village Dahisar, Taluka Borivali, City Survey Office Dahisar of Mumbai Sub-Urban District. Further, the applicant society i.e. "Applicant Park D Wing CHSL" has 9.15m Wide Right of way/Access from CTS No. 1197, 1198 & 1202/8 of Village Dahisar, Taluka Borivali, City Survey Office Dahisar of Mumbai Sub-Urban District as shown in approved plan as per the Architect Certificate which is annexed As Exhibit to this Main Application. n favour of the Applicant Society.

The hearing in the above case has been fixed on 28/10/2024 at 02:00 p.m.



District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4) Competent Authority U/s 5A of the MOFA, 1963.

Public Notice in Form XIII of MOFA (Rule 11(9) (e)) District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4) Bhandari Co-op.Bank building, 2nd floor, P.L. kale Guruji Marg, Dadar (West), Mumbai-400028

No.DDR-4/Mum./Deemed Conveyance/Notice/2760/2024 Date: 14/10/2024 Application u/s 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963

PUBLIC NOTICE

Application No. 216 of 2024

Rajesh Nagar Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Having address at Survey No. 120, Hissa No. 2A, CTS No. 47(pt), Saibaba Mandir Road, Borivali (W), Mumbai 400092 Applicant, Versus, 1. M/S. Bagwe Builders, Through its office at E- 12, Nand-Dham Industrial Estate, Marol-Marosh Road, Mumbai 400059 2. Smt. Vandana Digambar Bagwe, Through Power of Attorney holder M/S. Bagwe Builders Having its office at E-12, Nand-Dham Industrial Estate, Marol-Maroshi Road, Mumbai 400059 **3. Smt. Vijayalaxmi Bhagwan Tawde**, Through Power of Attorney holder M/S. Bagwe Builders Having its office at E-12, Nand-Dham Industrial Estate Marol-Maroshi Road, Mumbai 400059 **4. Smt. Kalpana D Bagwe**, Having address at CTS No 11 & 47, Village - Kandivali, Rajesh Nagar, Borivali (W), Mumbai 400092 **5.** M/S. Reliance Enterprises, Through its Partner Mr. Hemendra H. Mapara, Having office address at 8/35, Malad Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Poddar Park, Paddar Road, Malad (E), Mumbai 400097 **6.** M/S. K.D. Estate Developers, Through its Partners Mr. Kantilal A. Shah And Mr. Dinesh B. Salecha Having its office address at Office No. 24, First Floor, Bansi Bhuvan, 3st Lane Khetwadi Mumbai 400004 **7. Shree Rajesh Nagar CHSL**, Having address at CTS No. 11 & 47, Village Kandivali, Rajesh Nagar, Borivali (W), Mumbai 400092 8. New Rajesh Nagar CHSL, Having address at CTS No. 11 & 47, Village - Kandivali, Rajesh Nagar, Borivali (W), Mumbai 400092 9. Rajesh Nagar 'A' Bldg CHSL, Having address at CTS No. 11 & 47, Village - Kandivali, 9. Rajesh Nagar, Borivali (W), Mumbai 400092 10. Shree Rajesh Tower 'A' CHSL, Having address at CTS No. 11 & 47, Village - Kandivali, Rajesh Nagar, Borivali (W), Mumbai 400092 11. Shree Rajesh Tower B CHSL, Having address at CTS No. 11 & 47, Village - Kandivali, Rajesh Nagar, Borivali (W), Mumbai 400092 12. Om Tower CHSL, Having address at CTS No. 11 & 47, Village - Kandivali, Rajesh Nagar, Borivali (W), Mumbai 400092 Opponents and those, whose interests have been vested in the said property may submit their, say at the time of hearing at the venue entioned above. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this regard and further action will be taken accordingly.

Description of the Property:-

Claimed Area

Unilateral conveyance of undivided share i.e. 1450.34 square meters being the undivided share in balance plot area; 723.49 square meters being utilized TDR; and 291.85 square meters being undivided share in physical RG in larger lay-out bearing Survey No. 120, Hissa No. 2A Part and Survey No. 119 (part), CTS Nos. 47 and 11 of Village Kandivali, Taluka Borivali, MSD together with undivided share in lay-out benefits including and all and singular undivided proportionate lay-out right, benefits, privileges in common access road, set-back, reservation, PG etc., recreational benefit, and appurtenances whatsoever to the said lay-out together with the building/structures (being Building No. 3) standing thereon know as " Rajesh Nagar", in favour of the Applicant Society.

The hearing in the above case has been fixed on 28/10/2024 at 2.00 p.m.



District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4) Competent Authority U/s 5A of the MOFA, 1963.



360 वन वैम का 2,250 करोड़ रु का क्यूआईपी

देश की अग्रणी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म 360 वन वैम ने 2,250 करोड़ रुपये का पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) उतारा है। कंपनी इस क्यूआईपी के तहत 2.22 करोड नए शेयर 1.065.4 रुपये प्रति शेयर के भाव पर नए शेयर जारी करेगी। कंपनी के शेयर का आखिरी बंद भाव 2.3 फीसदी की गिरावट के साथ 1,011 रुपये रहा।

होंडा कार्स ने वापस मंगाईं 2,200 से ज्यादा गाड़ियां

होंडा कार्स इंडिया चुनिंदा मॉडलों में खराब फ्यूल पंप को बदलने के लिए 2,204 अतिरिक्त गाड़ियों को वापस मंगा रही है। इसके साथ ही वापस मंगाई गई कुल गाड़ियों की संख्या बढ़कर 92,672 हो गई है। कंपनी ने इससे पहले खुद पहल करते हुए 90,468 पुरानी गाड़ियों में फ्यूल पंप को बदलने की घोषणा की थी। कार विनिर्माता ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'अभियान में पुराने मॉडलों की 2,204 गाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें पहले कल-पूर्जे के रूप में यह हिस्सा बदला गया है।' इन वाहनों में लगाए गए फ्युल पंप में दोषपूर्ण इंपेलर हो सकते हैं, जिनकी वजह से भविष्य में इंजन को बंद या स्टार्ट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। होंडा कार्स इंडिया ने कहा कि पांच नवंबर, 2024 से चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में फ्यूल पंप को बिना कोई धनराशि लिए बदला जाएगा।

एयरटेल अफ्रीका का शुद्ध लाभ घटा

अफ्रीकी मुद्राओं में लगातार अवमूल्यन के दबाव से दूरसंचार सेवा प्रदाता एयरटेल अफ्रीका ने वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 2.4 करोड़ डॉलर के शुद्ध लाभ लाभ का ऐलान किया है। पिछले साल कंपनी को इसी तिमाही में 11.5 करोड़ डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ था।

अफ्रीकी मुद्राओं में लगातार गिरावट के असर से कंपनी ने राजस्व में 2.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की और यह घटकर 1.21 अरब डॉलर रह गया। वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में यह 1.24 अरब डॉलर था। हालांकि राजस्व में यह गिरावट पहली तिमाही में दर्ज 16.1 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले कम रही। राजस्व वृद्धि में खास तौर पर नाइजीरिया में मुद्रा के बड़े अवमुल्यन का असर पड़ा। कंपनी का एबिटा 56.4 करोड़ डॉलर रहा जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 62 करोड़ डॉलर के मुकाबले 9.1 प्रतिशत कम रहा। नवीनतम तिमाही में कुल ग्राहक आधार 6.1 प्रतिशत बढ़कर 15.66 करोड़ हो गया।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐंड फाइनैंस को 967.8 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐंड फाइनैंस कंपनी को चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 967.8 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 772.87 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में एकीकृत कुल आमदनी बढ़कर 6,322.34 करोड़ रुपये हो गई।

वजीरएक्स का प्रफ ऑफ रिजर्व 40% घटा

संकटग्रस्त क्रिप्टो कंपनी वजीरएक्स ने जुलाई में सुरक्षा उल्लंघन के बाद अपनी पहली प्रुफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट जारी की है, जिसकी वजह से जुन में इसके रिजर्व की तलना में इसकी संपत्ति में तकरीबन 40.4 प्रतिशत का घाटा हुआ है। क्रिप्टो एक्सचेंज ने बताया कि ऑन-चेन, थर्ड पार्टी एक्सचेंज और इलिक्विड संपत्ति समेत इसकी कुल संपत्ति 2,506.79 करोड़ रुपये है, जबिक कंपनी ने जून में कुल होल्डिंग 4,203.88 करोड़ रुपये बताई थी।

(भारत सरकार का उपक्रम)

भारतीय स्टेट बैंक

शेयरधारकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि एसबीआई के शेयर का अंकित मूल्य रु. 10 से विभक्त करवे

रु. 1 करने की प्रक्रिया में बैंक द्वारा जारी शेयर प्रमाण–पत्र, जिनका अंकित मूल्य रु. 10 है, दिनांक 22 नवंबर 2014 र

प्रभावी होकर अमान्य हो गए हैं. इस संबंध में दिनांक 05.11.2014 को भारत के राजपत्र में एक अधिसचना प्रकाशित की

गई थी. तदनुसार, सभी उद्देश्यों से, इस सूचना में दिए गए शेयरों के विवरण रु. 1 अंकित मूल्य के शेयर प्रमाण–पत्रों के हैं रतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक की निम्न उल्लेखित प्रतिभूतियों के लिए शेयर प्रमाण[–]पत्र पंजीकृत धारक/धारकों से

उक्त शेयर की नियत अवधि में उपयुक्त रूप से पूर्णकृत अंतरण अनुबंध(धों) के साथ/बिना गुम/खो गए हैं और उन्होंने बैंक

को उनके नाम से इप्लिकेट शेयर प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है. कोई भी व्यक्ति जिसका उक्त शेयर के सबंध

में कोई दावा है, उसे ऐसा कोई भी दावा बैंक के अंतरण अभिकर्ता, में, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम, टॉक्र

बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना – 500 032, (ई–मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com) पर इस तिथि से 7 दिनों के भीतर के पास दर्ज करवाना चाहिए, अन्यथ

प्रमाणपत्र संख्या

840 6326784 6326784 8064269281

8064270120

महाप्रबंधक

(शेयर एवं बांड

बैंक द्वारा किसी भी आगामी सूचना के बिना, डुप्लिकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढा दी जाएगी.

संख्या से

शेयरों की संख्या: 840

पमाण पत्रों की संख्या: 1

कॉरपोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई – 400021

वरिष्ठ प्रबन्धक (एमएम–एसडीसी)

आवश्यकता है नये विक्रेताओं की

हेतु प्रतिबद्ध हों। विस्तृत जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट https://hwr.bhel.com देखें। नोटः बीएचईएल के लिए आवश्यक वस्तुओं हेतु पंजीकरण प्रक्रिया https://supplier.bhel.in पर हमेशा खुली हुई है। भावी आपूर्तिकर्ता (एमएसई और

एससी / एसटी स्वामित्व सहित) इस वेबसाइट पर जाकर, सम्बंधित इकाई में पंजीकरण

HHEL

क्र. फोलियो सं. धारक(कों) का नाम

०७५२६७७० गीता तनेजा

स्थान: मुंबई

दिनांक: 26.10.2024

जय गोपाळ तनेजा

करते हैं (रिकॉर्ड दिनांक 21.11.2014).

जेएसडब्ल्यू स्टील का शुद्ध लाभ 84 प्रतिशत लुढ़का

बीएस संवाददाता और भाषा मुंबई/कोलकाता/चेन्नई,25 अक्टूबर

🧕 ज्जन जिंदल समूह की प्रमुख कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील ने जुलाई से सितंबर तिमाही (वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही) के दौरान समेकित शुद्ध लाभ में पिछले साल के मुकाबले 84.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की और यह घटकर 439 करोड़ रुपये रह गया। सस्ते आयात और असाधारण शुल्क की वजह से बिक्री से कम आमदनी के कारण यह गिरावट आई। एक साल पहले कंपनी का शुद्ध लाभ 2,760 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में समेकित आधार पर परिचालन राजस्व 39,684 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले के 44,584 करोड़ रुपये के मुकाबले 11 प्रतिशत कम है। राजस्व और शुद्ध लाभ दोनों ही ब्लूमबर्ग के अनुमान से कम रहे। उनका राजस्व का अनुमान 42,559.6 करोड़ रुपये और लाभ का अनुमान 485.1 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर राजस्व में 7.6 प्रतिशत तक और शुद्ध लाभ में 48 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

इस तिमाही के दौरान इस्पात बिक्री पिछले साल की तुलना में तीन प्रतिशत तक घटकर 61.3 लाख टन रह गई। हालांकि घरेलू बिक्री 55.7 लाख टन रही जो किसी भी तिमाही की सर्वाधिक है। संस्थागत श्रेणी की बदौलत इसमें सालाना आधार पर एक प्रतिशत का इजाफा हुआ। इस श्रेणी में बिक्री की मात्रा पिछले साल के मुकाबले 12 प्रतिशत बढ़ी। कंपनी ने कहा कि आयात बढ़ने की वजह से खुदरा श्रेणी की बिक्री में 14 प्रतिशत की गिरावट आई। वैश्विक बाजारों पर चीन के बढ़ते आयात का प्रतिकूल असर पड़ने की वजह से निर्यात सालाना आधार पर 43 प्रतिशत घटकर 3.9 लाख टन रह गया।

लाभ पर असाधारण शुल्क का भी असर पड़ा। कंपनी ने आर्थिक रूप से अव्यवहारिक परिचालन के कारण ओडिशा के क्योंझर जिले में जाजंग लौह अयस्क खदान सरेंडर करने की घोषणा की थी और कंपनी ने तिमाही के दौरान परिसंपत्तियों के अंतर्निहित मुल्य से संबंधित 342 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रावधान किया था। भारतीय कारोबारों में भूषण पावर ऐंड स्टील ने इस तिमाही के दौरान 93 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स (समेकित) ने तिमाही में 57 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

कंपनी ने बताया कि निदेशक मंडल ने 25 अक्टूबर से अरुण सीताराम माहेश्वरी को अतिरिक्त निदेशक के रूप में शामिल किया है और उन्हें 8 नवंबर से पूर्णकालिक नामित निदेशक (वाणिज्यिक और विपणन) के रूप में भी नियुक्त कर रही है, जो शेयरधारकों की मंजरी पर निर्भर होगी।

टॉरंट फार्मा का शुद्ध लाभ 17 प्रतिशत बढ़ा

टॉरंट समूह की प्रमुख कंपनी टॉरंट फार्मास्युटिकल्स का एकीकृत शुद्ध लाभ चाल विंत वर्ष की दूसरी तिमाही में 17

प्रतिशत बढकर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 453 करोड़ रुपये रहा। घरेल बाजार एमएम–एसडीसी, एचईईपी, बीएचईएल, हरिद्वार, उत्तराखंड में अच्छी बिक्री के फोनः 01334–281270, 5265, ई-मेलः vinodkumar.verma@bhel.in कारण कंपनी का लाभ बढ़ा है। दवा बीएचईएल को ऐसे विक्रेताओं की आवश्यकता है जो तकनीकी रुप से सक्षम हं कंपनी ने शुक्रवार तथा विभिन्न सामग्री वर्गों में, मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि के साथ श्रेष्ठ कार्य करने



वसूली से बैंक ऑफ बड़ौदा के शुद्ध मुनाफे में इजाफा

बैंक ऑफ बड़ौदा का शुद्ध लाभ सितंबर में समाप्त तिमाही में सालाना आधार पर 23.2 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 5,238 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जिसे गैर-ब्याज आय में ठीक-ठाक बढ़ोतरी और दबाव वाले कर्ज पर प्रावधान में कमी से सहारा मिला। क्रमिक आधार पर बैंक का मुनाफा 17.5 फीसदी बढ़ा। बैंक का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 2.26 फीसदी की गिरावट के साथ 239.5 रुपये पर बंद हुआ। बैंक की शुद्ध ब्याज आय इस अवधि में सालाना आधार पर 7.33 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 11,622 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। शुद्ध ब्याज मार्जिन सुधरकर 3.10 फीसदी हो गया, जो पहले 3.07 रहा था। क्रमिक आधार पर शुद्ध ब्याज मार्जिन आठ आधार अंक घटा।

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी देवदत्त चंद ने कहा, जमा लागतें सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और अब इसमें गिरावट आएगी। बैंक को उधारी पर प्रतिफल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा और वह वित्त वर्ष 25 के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.15 फीसदी रहने के अनुमान को बरकरार रख रहा है। बैंक की गैर-ब्याज आय सालाना आधार पर 24.2 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 5,181 करोड़ रुपये रही। जिसमें बट्टे खाते से रिकवरी दूसरी तिमाही में दोगुनी से ज्यादा होकर 2,525 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि बीते वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई-सितंबर तिमाही में उसे 386 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

टॉरंट फार्मास्युटिकल्स ने कहा कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजस्व बढ़कर 2,889 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,660 करोड़ रुपये था। कंपनी ने कहा कि भारत में उसका राजस्व 13 प्रतिशत बढ़कर 1.632 करोड़ रुपये रहा। दवा कंपनी ने सितंबर तिमाही में ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका जैसे विदेशी बाजारों में भी अच्छी बिक्री दर्ज की।

बंधन बेंक का शुद्ध मुनाफा 30 प्रतिशत बढ़ा

बंधन बैंक का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 30 प्रतिशत बढ़कर 937 करोड़ रुपये रहा। बैंक का गत वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में शुद्ध लाभ 721 करोड़ रुपये रहा था। बंधन बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय बढ़कर 6,095 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 5,032 करोड़ रुपये थी। जुलाई-सितंबर तिमाही में बैंक की ब्याज से आय बढ़कर 5,500 करोड़ रुपये हो गई, जो 2023 इसी तिमाही में 4,492 करोड़ रुपये थी।

बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार देखा गया और सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 2024 सितंबर अंत में सकल अग्रिमों की 4.68 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले यह 7.32 प्रतिशत थी। शुद्ध एनपीए या फंसा कर्ज भी घटकर 1.29 प्रतिशत रह गया. जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 2.32 प्रतिशत था। हालांकि, बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात घटकर 14.34 प्रतिशत रह गया, जो पिछले साल 30 सितंबर को 19.21 प्रतिशत था।

आईडीबीआई बैंक का शुद्ध लाभ 39 प्रतिशत बढ़ा

निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईडीबीआई बैंक का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 39 प्रतिशत तक बढ़कर 1,836 करोड़ रुपये हो गया। शुद्ध ब्याज मार्जिन में सुधार और गैर-ब्याज आय में बढ़ोतरी की बदौलत यह इजाफा हुआ। तिमाही आधार पर मंबई के इस ऋणदाता का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के 1,719 करोड़ रुपये के मुकाबले 7 प्रतिशत बढ़ा। शुक्रवार को बीएसई पर इसका शेयर 1.78 प्रतिशत बढ़कर 82.8 रुपये पर बंद हुआ।

आईडीबीआई बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) एक साल पहले की इसी तिमाही की 3,066 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 25 की दुसरी तिमाही में सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 3,875 करोड़ रुपये हो गई। तिमाही आधार पर एनआईएम वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के 4.18 प्रतिशत से अधिक रहा। बैंक ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि उसकी गैर-ब्याज आय, ग्राहकों को उपलब्ध कराई गए सेवाओं से अर्जित शुल्क, कमीशन आय पिछले साल के मुकाबले 48 प्रतिशत बढ़कर 1,313 करोड़ रुपये हो गई।

सितंबर 2024 में सकल एनपीए गिरकर 3.68 प्रतिशत रहने से परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ जबकि सितंबर 2023 में संकल एनपीए 4.9 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में अग्रिम राशि में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ और यह बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये हो गई।

श्रीराम फाइनैंस के मुनाफे में 20 प्रतिशत का इजाफा

देश की सबसे बड़ी खुदरा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) श्रीराम फाइनैंस ने चाल वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 2,153.27 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो साल 2023-24 की जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान दर्ज किए गए 1,791.83 करोड़ रुपये की तुलना में 20.17 प्रतिशत अधिक है।समीक्षाधीन अवधि के दौरान एनबीएफसी की कुल आय 18 प्रतिशत तक बढ़कर 10,096.68 करोड़ रुपये हो गई, जबकि साल 2023-24 की इसी तिमाही के दौरान 8,564.45 करोड़ रुपये थी। दूसरी तिमाही के अंत तक इसकी कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति (एयूएम) भी 20 प्रतिशत तक बढ़कर 2,43,042.55 करोड़ रुपये हो गई, जबिक साल साल 2023-24 में इसी अवधि के दौरान यह 2.02.640.96 करोड़ रुपये थी।

तिमाही में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घटकर 5.32 प्रतिशत रह गई, जबकि पहली तिमाही में यह 5.39 प्रतिशत और वित्त वर्ष 24 की दुसरी तिमाही के दौरान 5.79 प्रतिशत थी।

जेएम फाइनैंशियल का शुद्ध लाभ 19 प्रतिशत बढ़ा

जेएम फाइनैंशियल का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में 19 प्रतिशत बढ़कर 232 करोड़ रुपये हो गया। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 195 करोड़ रुपये रहा था।तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 36 प्रतिशत बढ़ा है। जेएम फाइनैंशियल ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय मामूली घटकर 1,211 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,214 करोड़ रुपये थी। जेएम फाइनेंशियल एक विविधीकत वित्तीय सेवा समूह है। इसके प्रमुख कारोबारों में एकीकृत निवेश बैंक, आवास और वाहन ऋण. वैकल्पिक और संकटग्रस्त ऋण परिसंपत्ति प्रबंधन, धन प्रबंधन और प्रतिभूति व्यवसाय शामिल हैं।

एनएलसी इंडिया का शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 9.5% घटा

सार्वजनिक क्षेत्र की एनएलसी इंडिया लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 9.5 प्रतिशत घटकर 982.41 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 1,085.93 करोड़ रुपये रहा था। एनएलसी इंडिया ने शक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी परिचालन आय सितंबर तिमाही में बढ़कर 3,657.27 करोड़ रुपये हो गई।

वेंचर कैपिटल फंडिंग 50 प्रतिशत बढी

जेडन मैथ्यू पॉल मुंबई, 25 अक्टूबर

भारत की वेंचर कैपिटल (वीसी) फंडिंग में साल 2024 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान सालाना आधार पर 50.4 प्रतिशत की उछाल देखी गई और यह बढ़कर 8.3 अरब डॉलर हो गई। ग्लोबलडेटा के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इस उछाल का श्रेय 10 करोड डॉलर से अधिक मूल्य वाले बड़े स्तर के सौदों में बढ़ोतरी को दिया जाता है।

जनवरी और सितंबर 2024 के बीच कुल 883 सौदों का ऐलान किया गया जो साल 2023 की इसी अवधि की तुलना में सौदों की मात्रा में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इन सौदों का घोषित फंडिंग मूल्य साल 2023 के 5.5 अरब डॉलर से बढ़कर साल 2024 में 8.3 अरब डॉलर हो गया।

ग्लोबलडेटा के अनसार अधिक मुल्य वाले इन सौदों में जेप्टो को फंडिंग के दो अलग-अलग दौर में मिले 66.5 करोड़ डॉलर और 34 करोड़ डॉलर, मीशो को हासिल 30 करोड़ डॉलर, फार्मईजी को 21.6 करोड़ डॉलर और फिजिक्सवाला को मिले 21 करोड़ डॉलर शामिल हैं जिससे इस उछाल की तेजी में मदद मिली।

बड़े आकार के सौदों की संख्या साल 2023 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही तक 10 थी जो साल 2024 की इसी अवधि में बढ़कर 15 हो गई। ग्लोबलडेटा के प्रमुख विश्लेषक, ओरोज्योति बोस ने कहा, 'साल 2023 में पैसा जटाने में भारतीय स्टार्टअप के पारि स्थितिकी तंत्र के सामने जो चुनौती थी, वह खत्म होती दिख रही है



तेजी का रुख

- साल 2024 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान बड़े आकार के सौदों की वजह से फंडिंग में हुआ इजाफा
- जनवरी और सितंबर 2024 के बीच कुल 883 सौदों का ऐलान किया गया
- साल 2023 की इसी अवधि की तुलना में सौदों की मात्रा में 7.3 प्रतिशत की हुई वृद्धि
- इन सौदों का घोषित फंडिंग मूल्य साल 2023 के 5.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 8.3 अरब डॉलर हो गया

क्योंकि इस साल वीसी फंडिंग गतिविधियों में लगातार सुधार हुआ है।' उन्होंने कहा कि 'इस रुझान को देखते हुए स्पष्ट है कि भारत वीसी कंपनियों के लिए आकर्षक बाजार बना हुआ है और ऐसा लगता है कि अब निवेशकों का दृष्टिकोण सतर्कता से सतर्क आशावाद में तब्दील हो रहा है।

वैश्विक स्तर पर वीसी सौदों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी साल 2024 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही के दौरान 7.2 प्रतिशत रही जबिक कुल घोषित मुल्य में इसकी हिस्सेदारी 4.5 प्रतिशत थी।

सात तिमाही बाद फिर घाटे में गई इंडिगो

नेगी ने कहा कि हवाई अड्डों का वार्षिक अनुबंध शुल्क भी बढ़ गया है. जिससे कंपनी को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में इंडिगो का ईंधन संबंधी

खर्च 12.8 फीसदी बढ़कर 6,605.2 करोड़ रुपये रहा। नेगी ने कहा, 'बुनियादी ईंधन का खर्च साल-दर-साल घटी है मगर खपत बढ़ने, कुछ राज्यों में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर बढ़ाए जाने और प्रमुख हवाई अड्डों पर विमानों की भीड़ बढ़ने से कुल ईंधन लागत बढ़ गई है।'

इंडिगो के मुख्य कार्याधिकारी पीटर एल्बर्स ने भी हवाई अड्डों पर विमानों के जमावड़े को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, 'बनियादी ढाँचा बढाने पर कई प्रयास किए गए हैं मगर दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर इस स्तर के बनियादी ढांचे को तैयार करने में अभी थोडा समय लगेगा। इसका असर विमानों के परिचालन प्रदर्शन के साथ-साथ इन हवाई अड्डों की क्षमत बढ़ाने पर भी पड़ेगा।'

मुंबई हवाई अड्डे के पास और विस्तार के लिए जगह नहीं है और उसका रनवे पूरी क्षमता से काम कर रहा है। इस साल जून में दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के बाहर की छत ढहने के बाद इस टर्मिनल से विमानों का परिचालन बंद कर दिया गया था। हालांकि सितंबर से टर्मिनल 1 के कुछ हिस्सों को खोला गया है मगर बड़े हिस्से में अभी भी काम चल रहा है।

आईनॉक्स विंड को हुआ 90 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

आईनॉक्स विंड लिमिटेड (आईडब्ल्युएल) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 90.2 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 26.84 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सचना में कहा कि उसकी कुल आमदनी सितंबर तिमाही में बढ़कर 741.74 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 384.40 करोड़ रुपये थी। कंपनी का खर्च भी समीक्षाधीन तिमाही में बढ़कर 647.93 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 412.54 करोड़ रुपये था।

बीपीसीएल का शुद्ध लाभ 72 प्रतिशत घटा

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी बीपीसीएल के सितंबर तिमाही के शुद्ध लाभ में 72 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। रिफाइनरी और विपणन मार्जिन घटने कंपनी लाभ कम हुआ है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को जुलाई-सितंबर, 2024 के वित्तीय नतीजों की सूचना दी। बीपीसीएल ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 2,297.23 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया है जबकि एक साल पहले यह 8,243.55 करोड़ रुपये था। अप्रैल-जून की तिमाही के मुकाबले भी बीपीसीएल का शुद्ध

लाभ कम हुआ है। जुन तिमाही में इसका शुद्ध लाभ 2,841.55 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 1.17 लाख करोड़ रुपये के साथ लगभग अपरिवर्तित रहा। एक साल पहले की समान अवधि में यह 1.16 लाख करोड़ रुपये था। बीपीसीएल के अलावा सरकारी स्वामित्व वाली ईंधन खुदरा विक्रेताओं - इंडियन

ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने पिछले साल लागत घटने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखेकर काफी मनाफा कमाया था। भाषा एचपीसीएल का शुँद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 98 प्रतिशत घटकर

142.67 करोड़ रुपये हुआ

सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 97.5 प्रतिशत लढक कर 142.67 करोड रुपये रहा। कंपनी का रिफाइनरी और विपणन मार्जिन घटने से लाभ कम हुआ है। एचपीसीएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में 5,826.96 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। तिमाही आधार पर भी कंपनी का शुद्ध लाभ घटा है। चालू वित्त वर्ष अप्रैल-जून अवधि में कंपनी को 633.94 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

वैश्विक कारोबार का पुनर्गठन कर रही रिलायंस इंडस्ट्रीज

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर

दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग परिसर की परिचालक रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने कारोबारी कामकाज का पुनर्गठन कर रही है। योजना के जानकार दो सुत्रों ने कहा कि इसके तहत कंपनी अपनी दुबई में मौजूद क्रुड ऑयल ट्रेडिंग टीम को मुंबई वापस लाएगी।

एक सूत्र ने नाम नहीं छापे जाने की शर्त पर बताया कि रूस से दीर्घावधि तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद कच्चे तेल की ट्रेडिंग करने वाली टीम का स्थानांतरण किया जा रहा है। यह इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा। रूसी आपूर्ति के बाद अब कंपनी की



वैश्वक पुनर्गठन के तहत दुबई की क्रूड टीम को भारत वापस बुलाएगी

हाजिर तेल खरीदने की जरूरत कम हो गई है।

सूत्र ने कहा, 'अब रिलायंस ने रूस के साथ कच्चे तेल के आयात समझौता कर लिया है। इसके अलावा कंपनी के पश्चिम एशिया के

बडे उत्पादकों के साथ कच्चे तेल के आयात के लगातार सौदे भी हैं। इसलिए वहां कर्मचारियों को रखने के लिए अतिरिक्त रकम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।' रिलायंस ने रॉयटर्स द्वारा इस संबंध में भेजे गए ईमेल संदेश का जवाब नहीं दिया है। वर्ष 2021 में अरबपति कारोबारी

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली आरआईएल ने ऑयल और रिफाइंड ईंधन (पेट्रोरसायन समेत) के कारोबार के लिए संयुक्त अरब अमीरात में कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। उसके एक साल बाद रिलायंस अपनी क्रुड ट्रेडिंग टीम को दुबई ले गई क्योंकि यह शहर रूस-युक्रेन संघर्ष के बाद रूसी तेल के कारोबार का मुख्य केंद्र बन गया था।

मुं**बई संस्करण** : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संगीता खेओरा द्वारा में. दांगट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 22, दीघा एमआईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, विष्णु नगर, दीघा, नवी मुंबई-400708 से मुद्रित एवं बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 से प्रकाशित संपादक : कैलाश नौटियाल\ आरएनआई नं. MAHHIN/2008/24325 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं । टेलीफोन – 033–22101314/1022/1600 फैक्स – 033–22101599 सबस्किप्शन और सर्कूलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नही

पाठवण्यास सांगितले आहे.

यामले केहिट स्कोअर जलद

टर प्रहिन्याच्या १५ तास्बेला

अपडेट होईल,

फायदेशीर ठरेल.

ग्राहकांचे सिबील

या

आणि गाहक बँका

दोघांसाठी

नियमांनुसार,

जर एरवाद्या व्यक्तीने कर्जाची EMI वेळेवर परत केली नाही किंवा कर्जाची पर्तता केली नाही तर त्याचा त्याच्या रकोअरवर नकारात्मक परिणाम त्यामुळे होतो. भविष्यात कर्ज घेणे कठीण होऊ शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सिबिल स्कोअरबाबत बँका आणि विनीय कंपन्यांना नतीन सचना

यानुसार, गाहकांचा क्रेडिट स्कोअर दर १५ केला . दिवसांनी अपडेट जाईल. आरबीआयने बँका विचीय संस्थांना क्रेडिट स्कोअर त्वरित अपडेट करण्याचे निर्देश दिले आहेत तसेच, दर दोन आठवड्यांनी ग्राहकांची क्रेडिट माहिती . केडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना





आणि महिन्याच्या शेवटी अपडेट केले जाऊ शकतात



क्रेडिट स्कोअरबाबत नियम बदलले

बंधनकारक आहे.

फायदेशीर ठरेल.

इन्फॉर्मेशन

कंपन्यादेखील

१५ दिवसांच्या अंतराने डेटा

अपडेट करण्यासाठी त्यांच्या

स्वतःच्या निश्चित तासवा सेट

करू शकतात. क्रेडिट संस्थांना

प्रत्येक महिन्याला गाहकाची

क्रेडिट माहिती क्रेडिट इन्फॉर्मे

शन कंपन्यांकडे साहर करणे

कर्जाची परतफेड झाली आहे आणि त्यांचा केडिट स्कोअर सधारला आहे. त्यांना याचा लाभ होईल. दुसरीकडे बँकांना गाहकांच्या जोखमीचे अधिक अचूक मूल्यांकन करता येईल त्यांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध होईल.

Mahamoney.com क्रेडिट स्कोअर १५ दिवसांनी अपडेट केल्यास. बँकांकडे ग्राहकांचा हे पाऊल कर्ज घेणारे आणि कर्ज देणारे या दोघांसाठी अचूक डेटा उपलब्ध असेल. ते समज शकतील की कोणता ग्राहक कर्जाची बँक आणि एनबीएफसीसाठी प्रतफेड करण्यास सक्षम आहे योग्य क्रेडिट माहिती अत्यंत आणि कोणता नाही. यामुळे महत्त्वाची आहे. यावरुन त्यांना कोणाला कर्ज द्यायचे डिफॉल्टची संख्या कमी होण्याचीही अपेक्षा आहे

आणि कोणाला नाही याबद्दल

अधिक चांगले निर्णय घेण्यास

मदत होणार आहे. तसेच

त्यावमन कर्जाचा व्याजदर

निश्चित करण्यात मदत होईल.

यातून चांगला क्रेडिट स्कोअर

दरात कर्ज मिळण्याचा फायदा

विशेषतः

ज्यांच्या

ग्राहकांना

मरिन ड्राइव्हच्या इमारतींची उंची ५८ मीटरपर्यंत कशी वाढवली?

दक्षिण मुंबईतील मरिन डाइव्ह परिसरात पालिकेच्या कार्यपत्तिवर आहे का? तम्हाला असा इमारतींच्या पुनर्विकासात हायकोर्ट संतापले

इमारतीना ५८ मीटरपर्यंत उंचीची परवानगी दे बांधकाम उचाचा परवानगा दऊन बाधकाम व्यवसायिकांवर महेरबान झालेल्या महापालिकेच्या कारभारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने संताप

व्यक्त कला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने इमारतींना २४ मीटर ऐवजी ५८ मीटर उंचीला परवानगी देऊन टोलेजंग इमारती

निवडणुकीच्या

उभाज्या जागा आहेर या परिवासी शान जाणार आहे.तम्हाला मरिन डाइव्हची

स्कायलाईन बिघडवायची एकतर्फी निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणी दिला असे सवाल उपस्थित करत

पालिकेच्या २०२३ च्या मार्गदर्शक तत्वाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली. मरीन डाडव्ह येथील इमारतींच्या पुनर्विकास करताना २४ मीटर पर्यंत उंची निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर पालिकेने२०२३ साली आयुक्तांच्या विशेष परवानगी अंतर्गत मागच्या बाजूला असलेल्या इमारतींना ५८ मीटरपर्यंत उंची वाढवण्याची परवानगी

विक्री खंशकामसम्बद्ध सभी मर्मास्मी तत्त्वेही प्रसिद्ध केली. या मार्गदर्शन तत्त्वांन आक्षेप घेत फेडरेशन ऑफ चर्चगेट रेसिडेंट या संघटनेने मंबर्द उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोस्कर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यांच्ळी यांचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ अमित बोरकर वकील ॲड. अस्पी चिनॉय यांनी पालिकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनाच जोरदार आक्षेप १९९१ च्या विकास नियंत्रण नियमावली (दीसीआर) अंतर्गत न्यायालयाच्या मागील आदेशांचे तसेच दतर नियमांचे पालन न करता पालिकेने

हिंगोलीमध्ये १ कोटी रुपयांची रोकड जप्त ■ हिंगोली

पार्श्वभमीवर राज्यभरात वेगवेगळ्या भागांत पोलिसांकडन नाकेबंदी सरू आहे. त्यात हिंगोलीत एका कारची पोलिसांनी तपासणी केली असताना १ कोटी रुपयांची रोकड पोलिसांनी सापडली. ही रोकड पोलिसांनी जप्त केली असून ही रोकड कोणत्या कामासाठी वापरण्यात येणार होती याची चौकशी

न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला शिक्षण उपसंचालकाला हायकोर्टाचा दंड

आदेशाचा मनमानी करणाऱ्या मुंबई शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला.न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठी यांनी ३ लाख ३० हजाराचा दंड ठोठावला. या रकमेतून ११ याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी. तर याचिकाकर्त्यांनी त्यातील दहा हजार रुपये दोन अनाथ आश्रमांना द्यावेत असेही आदेशात म्हटले

ठाणे जिल्ह्यातील माध्यमिक शांळातील १८ शिक्षकांना शिक्षणांधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. मात्र मुंबई शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांनी या शिक्षकांना मान्यता नाकारली. त्या विरोधात शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने या शिक्षकांना सेवेत सामावून घेऊन त्यांना वेतनासाठीचा आयडी देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आयडी न मिळाल्याने राजेंद्र सावंत, सुप्रभा ससाणे , निलेश ढोले, शसेपिता शिंगाडे, उषा दळवी, अनिता करोटे, अंजिव सपाळे यांच्यासह ११ शिक्षकांच्या वतीने ॲड. नरेद्र बांदिवडेकर यांनी स्वतंत्र अवमान याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या या याचिकांवर न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

दुबईत पायी चालणाऱ्या ४४ हजार लोकांना ४०० दिनारचा दंड ठोठावला

दबईत वाहतुक नियमांचे काटेकोर पद्धतीने पालन केले जाते. फक्त वाहनचालकच नाही तर स्प्त्याने पायी चालणाऱ्या नागरिकांनादेखील वाहतूक नियमांचे पालन करावे लागते. त्यानुसार दुबईत पायी चालणाऱ्या XX हजार लोकांना दंड ठोठावण्यात आला आहे.वाहतूक नियम मोडल्याप्रकरणी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.या पादचाऱ्यांवर प्रत्येकी ४०० दिनारचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.दुबईत

पायी चालणाऱ्यांसाठी 'जे वॉकिंग' नावाचा कायदा आहे.'जे वॉकिंग' म्हणजे परवानगी किंवा नियुक्त ठिकाणाशिवाय रस्ता ओलांडणे जेव्हा एखादी व्यक्ती ट्रॅफिक सिग्नल किंवा झेब्रा क्रॉसिंगकडे दुर्लक्ष करून रस्त्याच्या मधोमध किंवा क्रॉसिंगला परवानगी नसलेल्या ठिकाणाहून रस्ता ओलांडते. तेव्हा त्याला 'जे वॉकिंग' असे म्हणतात.'जे वॉकिंग' कायदा मोडन परवानगीशिवाय रस्ता ओलांडल्यास किंवा ट्रॅफिक सिग्रल तोडल्यास ४०० दिनार दंड

'बेस्ट' मधून 'हंसा' कंपनी बाहेर! २६२ गाड्या १५ दिवसांपासून बंद

नेप्य गानपात भारे तन्तात्व सम्मारूप चालविणाऱ्या 'हंसा' या कंपनीने १० ऑक्टोबर पासून या गाड्या चालविण्यास आपली असमर्थता दर्शविली आहे त्यामुळे त्यांच्याकडून मरोळ, दिंडोशी बस आगाराच्या ठिकाणी पुरविण्यात येणार्या २६२ बसगाङ्यांवर ॰ बेस्ट उपकमाला स्वतःचे चालक व वाहक उपलब्ध करावे लागत आहेत.'हंसा' कंपनीने आपणास यापुढे या बसेस चालविणे नसल्याचे बेस्ट प्रशासनाला कळवले आहे.

'हंसा' कंपनीने भाडे तत्त्वावर ।गाड्या चालविण्यात असमर्थता बसगाङ्या

दर्शवल्याने आता बेस्टला कायदेशीर पाऊल उचलून कार्यवाही करणे भाग पडणार आहे. तर, दुसरीकडे २६२ बसगाड्यांची नियमित वाहतूक सुरू ठेवण्याची कसरत पार पाडावी लागणार आहे.दरम्यान, बेस्ट उपक्रमाने 'हंसा' कंपनीसोबत बस सेवा पुरवठा करण्याच्या विषयावर एका बैठकीत नुकतीच चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यामध्ये, बेस्टला अपेक्षित यश आले नाही. 'हंसा' कंपनीने यापुढे बेस्टला बससेवा पुरविणे शक्य नसल्याचे सांगत असमर्थता दर्शवली.

दरम्यान, 'हंसा' कंपनीने भाडे बसगाङ्या चालविणे, तत्वावरील त्यासाठी मनुष्यबळ पुरविण्यात

असमर्थता दर्शविल्याने शिवडी येथील बस प्रवासी आणि शालेय विद्यार्थी यांची मोठी गैग्योय होत असल्याची तक्रार शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी बेस्ट नगरसवक साचन पडवळ वाना बस्ट उपक्रमाकडे केली आहे. कुलाबा येथील बेस्ट भवनमध्ये कंपनी व बेस्ट प्रशासन यांच्यात बैठक झाली. त्यावेळी या बैठकीतही भाडेतत्त्वावरील कंत्राटदाराने या कराराची पुढील कार्यवाही करण्यास असमर्थता दर्शविली.त्यामुळे आता बेस्ट व कंत्राटदार यांच्यात झालेला करार लवकरच संपुष्टात आणण्याबाबत कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात येईल, असे बेस्टचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

शेवगाव पाथर्डीतून भाजपाच्या हर्षदा काकडेंनी अपक्ष अर्ज भरला मुंडे आणि गाडगे महाराज

अहमदनगर

शेवगाव पाथर्डी विधानसभा मतदारसंघातून भाजपाच्या माजी जिल्हा परिषद सदस्य हर्षदा काकडे यांनी आज सकाळी शक्तिप्रदर्शन करत जोरदार अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला. त्यांच्या अपक्ष उमेदवारीमले महायुतीच्या उमेदवाराचे टेन्शन वाढणार आहे. शेवगाव शहरातील डॉ.

बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, गोपीनाथ

यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करत त्यांनी रॅली काढली. त्यानंतर जनशक्ती संघटनेच्या कार्यकर्त्याच्या उपस्थितीत त्यांनी उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णायक अधिकारी प्रसाद मते यांच्याकडे दाखल केला. हर्षदा काकड़े या भाजपाचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपामध्ये काम करत होत्या. मात्र काही दिवसांपासून त्या भाजपापासून अलिप्त झाल्या होत्या.

'दाना' चक्रीवादळाचा वेग अखेर मंदावला

■ कोलकाता

अंद्रमानजवळील ्रजल जनाण झालेल्या वाऱ्यांमुळे ^र दान्य निर्माण , चक्रीवादळाचा परिणाम पश्चिम बंगाल. ओडिशासह ७ राज्यांना बयला विविध राज्यातील प्रशासनांनी केलेल्या पूर्वतयारीमुळे व एनडीआरएफच्या तत्परतेमुळे या वादळात जिवीतहानीचे वृत्त नसले

तरी मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले गार. ओडीशातील केंद्रपारा जिल्ह्यातील

आणि भदक

जिल्ह्यातील धामरामध्ये किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहिले. या चक्रीवादळामळे ओडिशात मुसळधार पाऊस पडला. राज्यातील

लाख ८४ हजार लोकांना



होते. या वादळामुळे शेजारील ७ राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडला. पश्चिम बंगालमधील १ लाख ५९

आणि हरिहर पाण्डे यांनी याचिका

दाखल केली होती. पुढे हरिहर पाण्डे यांचे निधन झाल्यानंतर

त्यांचे मुलगे प्रणय कुमार पाण्डे आणि कर्ण शंकर पाण्डे यांनी

आपल्याला या खटल्यात पक्षकार

करून घेण्यासाठी याचिका दाखल

हजार लोकांना मदत शिबिरामध्ये हलवण्यात आलेले आहे. या चक्रीवादळामुळे कोलकाता व भुवनेश्वर येथील विमानतळे आज सकालपर्यंत बंद ठेवण्यात आली

होती. या भागातील रेल्वेच्या ५५२ गाङ्या रह करण्यात आल्या. ओडिशात राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती निवारण न दलाच्या २८८ तुकड्या नैनात करण्यात आल्या असून जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालये बंद तेवण्यात आली होती. चक्रीवादळचा

प्रभाव पश्चिम बंगाल, ओडिशा बरोबरच आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, बिहार, तामिळनाडू या

पट्टे बापूरावांवरील चित्रपटासाठी करार झाल्याची सुनेची माहिती

🔳 पुणे

लोकप्रिय शाहीर पठे बापुराव अर्थात श्रीधर कृष्णा कलकर्णी यांच्या जीवनावरील चेत्रपटांसाठी करार करण्यात आला असल्याची माहिती शाहीर पट्टे बापूराव यांच्या शाहार न सुनेने दिली आहे. सर्व एकमेव आपण कायदेशीर वारम असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

आज पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पट्टे बापूराव यांची सून निलनी गोविंद कुलकर्णी यांनी म्हटले की,

माझ्या सासऱ्यांच्या जीवनावर किंवा त्यांचे नाव वापरन कोणतीही चित्रफित, चित्रपट किंवा कोणत्याही प्रकारच्या द्कश्राव्य कलाकृतीसाठीचे अधिकार मला देण्यात आले आहेत.

यासाठी २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी असमधी व ह्यूज प्रॉडक्शन यांच्याबरोबर नोंदणीकत करारनाम करण्यात आला आहे.

त्यांना कलाकृती निर्माण करणे, त्याचे प्रदर्शन व विक्री करण्याचे अधिकार देण्यात

OSBI

भारतीय स्टेट बँक

मेटेड. सेलेनियम. टॉवर बी. प्लॉट क्र ५०० ०३२ (इमेल आयडी: einward.ris@kfintech.co भारतीय स्टेट बँक

अनु	फोलियों क्र.	धारकाचे नाव	समभाग	प्रमाणपत्र क्रमांक		ग प्रमाणपत्र क्रमांक विभिन्न क्रमांक		क्रमांक
क्र.			संख्या	पासून	पर्यंत	पासून	पर्यंत	
9	0843£880	गीता तनेजा	C80	£32£028	£37£0C8	८०६४२६९२८१	८०६४२७०१२०	
		जय गोपाळ तनेजा						

वरील आकडे रु. १/- दर्शनी मूल्याच्या वर्तमान समभागांच्या समभाग विभ २१.१९.२०१४) तपशील दर्शवतात.

ज्ञानवापीची सुनावणी पूर्ण! ४ नोव्हेंबर रोंजी निकाल वाराणसी - वाराणसीतील वादग्रस्त करण्याची परवानगी द्यावी. या

समुद्रात

चक्राकार

झालेल्या

ज्ञानवापी मशिदीशी संबंधित एका याचिकेवरील सुनावणी आज विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह यांच्यासमोर सुनावणी पूर्ण झाली. उभयतर्फी युक्तिवाद झाली. उभयतर्फी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निकाल . देण्यासाठी ४ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली

ज्ञानवापी मशिदीच्या व्यास हिंदंना पुजा-पाठ

रावेरमध्ये काँग्रेसकडून धनंजय चौधरींना उमेदवारी रावेर - रावेर विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसने विद्यमान आमदार शिरीष चौधरी यांचे पुत्र धनंजय मागणीसाठी सन १९९१ पंडित सोपनाथ लगास गर्समा पार्मा

चौधरी यांना उमेदवारी दिली आहे. रावेर मतदारसंघातून शिरीष चौधरी हे २००९ साली अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपाच्या हरिभाऊ जावळे यांनी त्यांचा पराभव केला होता. २०१९ मध्ये पुन्हा शिरीष चौधरी यांनी ही जागा आपल्याकडे राखली. भाजपाने रावेर मतदारसंघातून अमोल या हरिभाऊ जावळे यांच्या मुलाला उमेदवारी दिली आहे. त्या पाठोपाठ काँग्रेसनेही शिरीष चौधरी यांच्या मुलाला उमेदवारी देत या मतदार संघात तरुण उमेदवाराला संधी दिली आहे.

केली आहे भाजपाच फेक नरेटिव्ह प्रसुरवत आहे! काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटोलेंचा आरोप

भाजपा हाच आरक्षण व संविधानविरोधी असून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या एका विधानाची मोडतोड करून फेक नरेटिव्ह पसखण्याचा प्रयत्न करत आहे. असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या भितीनेच समाज माध्यमातून हे फेक नरेटिव्ह पसरवले जात आहे, असा दावाही पटोले यांनी केला.

आज राजधानी दिल्लीत पटोले पत्रकारांशी बोलत होते. याप्रसंगी ते

म्हणाले की, भाजपाने लोकशाही व संविधान धाढ्यावर बसवले आरक्षण संपवणारा पक्ष असा शिका त्यांच्यावर आहे. हा कलंक पुसण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत.

२०१४ साली रामलीला मैदानावर संविधान जाळण्यात आले मोदी सरकाने आजपर्यंत काहीही कारवाई केली नाही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा न घेता, थेट भरती करून एका विशिष्ट जातीच्या मुला-मुलांची संयुक्त सचिव पदावर भरती केली. त्याद्वारे गरिबांच्या मुलांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे पाप भाजपाने केले.

मनसेची ५ उमेदवारांची चौथी यादी जाहीर ■ मुंबई

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची चौथी यादी आज जाहीर करण्यात आली. या यादीत ५ जागांवरील उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली आहे. या यादीत कसबा पेठ मतदारसंघातन गणेश भोकर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. चिखली मतदारसंघातन गणेश बरबड़े हे लढणार आहेत. कोल्हापूर उत्तर मधून अभिजित राऊत यांना संधी दिली आहे. केजमधून रमेश गालफाडे यांना उमेदवारी दिली आहे. कलीना येथून संदीप उर्फ

बाळकृष्ण हुटगी हे लढणार आहेत.

TENDER FOR RE-DEVELOPMENT Kesar Residency Co-op Hsg. Society Ltd.

inviting Developers to re velop its existing Residentia m commercial building situate Plot No. CHK-1, RDP-6, Secto b. 3, MHADA Layout, Charko andivali (West), Mumbai

57.

lizing plot potential MHAD,
MCGM Fungible Compensa
SI + benefits of Layout FS
rm MHADA / MCGM / Gov
es + any Titbit Land, Roai
ack, play ground, Amenit
benefits.

Plot Area as per MHADA Lease Deed is 3162.70 Sq Meter or thereabout Consisting Ground

7th Floor
Tender document is available
from Society from to 28th Oct
2024 to 11th Nov 2024 on
Payment of Rs. 10000/- (Rs. Ten
Thousand Only) by pay order
(Non-Refundable) in favour of
Kesar Residency Co-Op
Housing Society Ltd."

ast date of Submissior 11th Nov 2024 Contact Mr. J. P. Sharma Call No. 9869216108 Mr. Ashok R. Parab Call No. 9969325246

ning: 11 am to 08 pm

Kesar Residency Co Hsg. Society Ltd. Sd/- Sd/-Chairman Secret

जाहीर सूचना

मुंबई